

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी, ब्रैम्पटन में एयर कैनेडा फ्लाइट 621 हादसे की 50<sup>वीं</sup> वर्षगांठ मनाएगी

ब्रैम्पटन, ओन्टैरियो (25 जून, 2020) – रविवार, 5 जुलाई को सुबह 11 बजे, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, ईस्ट ब्रैम्पटन (East Brampton) में, दर्दनाक एयर कैनेडा फ्लाइट 621 (Air Canada Flight 621) हादसे की याद में 50<sup>वीं</sup> वर्षगांठ मनाएगी। इस हादसे के पीड़ितों को, एक ऑनलाइन वीडियो समारोह में याद किया जाएगा और सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की सभी फेसिलिटीज पर झंडे आधे-झुके हुए होंगे।

समारोह, [www.brampton.ca/bramptonremembers](http://www.brampton.ca/bramptonremembers) पर और @CityBrampton, YouTube, Twitter और Facebook पर उपलब्ध कराया जाएगा।

समुदाय, [www.brampton.ca/bramptonremembers](http://www.brampton.ca/bramptonremembers) पर एक ऑनलाइन गेस्टबुक में, संदेश, यादें और शोक साझे कर सकता है।

### पर्पल लिलैक मेमोरियल पार्क

हादसे के बाद 50 वर्षों की याद में इसे मनाने और पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए, पर्पल लिलैक पार्क (Purple Lilac Park) का नाम बदलकर, पर्पल लिलैक मेमोरियल पार्क (Purple Lilac Memorial Park) रखा गया है। यह हादसे वाली जगह, 72 डेग्रे ड्राइव (72 Degrey Drive) पर स्थित है। लिलैक (Lilac) के पेड़ों के फूल, पार्क में स्मारक वाली जगह (मेमोरियल साइट) पर खिलते हैं, जहां प्रत्येक पीड़ित के सम्मान में, रास्ते पर 109 ग्रेनाइट के पत्थर लगाए हुए हैं। ग्रेनाइट के एक बड़े गोल पत्थर पर लगी फलक पर पीड़ितों के नाम लिखे हुए हैं।

सिटी, ओन्टैरियो हेरिटेज एक्ट (Ontario Heritage Act) के अंतर्गत, इस पार्क को सांस्कृतिक विरासत के स्रोत के तौर पर नियत करने की प्रक्रिया कर रही है।

### पृष्ठभूमि

5 जुलाई, 1970 को, एयर कैनेडा फ्लाइट 621, डगलस डी.सी.-8 (Douglas DC-8) हवाई जहाज का, कैसलमोर (Castlemore) के गांव में खेतों में हादसा हो गया था, जो अब कैसलमोर रोड (Castlemore Road) और मैकवीन ड्राइव (McVean Drive) है। यह हवाई जहाज, मॉन्ट्रियल (Montreal) से लॉस एंजेलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Los Angeles International Airport) के रास्ते में, तय समय पर रुकने के लिए, टोरोंटो इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Toronto International Airport) पर उतरने का प्रयास कर रहा था।

फ्लाइट के सभी 109 यात्रियों की मृत्यु हो गई थी, जिनमें 100 यात्री और नौ जहाज के कर्मचारी थे। हादसे के समय, एयर कैनेडा फ्लाइट 621, कैनेडा में दूसरा भयानक जहाज संबंधी हादसा था। यह पूरी दुनिया में कैनेडा निवासियों से जुड़े, सब से बदतर जहाज संबंधी हादसों में से एक है। पीड़ितों में मॉन्ट्रियल और वैनकूवर (Vancouver) के कैनेडा निवासी और अमेरिकी शामिल थे। फ्लाइट 621

के उनचास पहचाने गए और तीन बिना पहचाने गए पीड़ितों को, टोरोन्टो में माउंट प्लेज़ेंट सेमेटरी (Mount Pleasant Cemetery) में दफनाया गया था। हादसे के सभी पीड़ित नहीं मिले थे।

एयर कैनेडा फ्लाइट 621 हादसे और सिटी द्वारा इसकी याद को मनाने के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [www.brampton.ca/bramptonremembers](http://www.brampton.ca/bramptonremembers) पर जाएं।

## हवाले

“पचास साल पहले, एयर कैनेडा फ्लाइट 621 के साथ, ब्रैम्पटन में हादसा हो गया था, जिसने कई लोगों की ज़िंदगियां बदल दी थीं। यह दर्दनाक याद, ब्रैम्पटन के इतिहास का एक बड़ा हिस्सा है। कोविड-19 के कारण, शारीरिक दूरी जैसे सख्त उपायों को देखते हुए, हम पर्पल लिलैक मेमोरियल पार्क में व्यक्तिगत तौर पर इसका यादगार समारोह नहीं मना सकते। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि, इस हादसे में जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगियां खोई हैं, उनके सम्मान में, 5 जुलाई को एक ऑनलाइन यादगार समारोह के लिए हमारे साथ जुड़ें।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“एयर कैनेडा फ्लाइट 621 हादसा एक दर्दनाक घटना है, जिसे ब्रैम्पटन कभी नहीं भूलेगा। 5 जुलाई को हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम उन लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां खोई हैं और जो इस हादसे से प्रभावित हुए हैं। मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप अकेले या अपने परिवार के साथ, पर्पल लिलैक मेमोरियल पार्क में स्मारक पर जाएं।”

- पैट फोर्टिनी (Pat Fortini), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“दर्दनाक एयर कैनेडा फ्लाइट 621 हादसे को 50 साल हो चुके हैं और ब्रैम्पटन इसे याद कर रहा है। हालांकि हम व्यक्तिगत तौर पर इस घटना की याद को नहीं मना सकते, फिर भी पर्पल लिलैक मेमोरियल पार्क, पीड़ितों को एक शानदार श्रद्धांजलि है। कृपया समारोह के वीडियो देखने और गेस्टबुक पर हस्ताक्षर करने के लिए, 5 जुलाई को [www.brampton.ca/bramptonremembers](http://www.brampton.ca/bramptonremembers) पर जाएं।”

- शारमैन विलियम्स (Charmaine Williams), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 7 और 8, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हालांकि हम व्यक्तिगत तौर पर एयर कैनेडा फ्लाइट 621 हादसे की याद में इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए एकत्र नहीं हो सकते, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम इस घटना को याद करना जारी रखें। सिटी के स्टाफ ने हादसे की याद को मनाने के लिए, समारोह के वीडियो और एक गेस्टबुक के साथ, ऑनलाइन केंद्र (हब) तैयार किया है। समारोह संबंधी वीडियो, ज़िंदगियां खोने वाले लोगों, लगातार इस दर्दनाक हादसे से प्रभावित लोगों, सबसे पहले प्रतिक्रिया करने वालों और यात्रियों तथा फ्लाइट के कर्मचारियों के परिवारों और उस समय, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सम्मान देता है।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

**मीडिया संपर्क**

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)